

ṅṛigasōdara m. esp. d'eclipta ou de verbesina, bot.

ṅṛigāra m. (ṛ) vase d'or employé dans les cérémonies royales. || Eclipta prostrata, bot. — N. or. || Clous de girofle.

ṅṛigāri et *ṅṛigārikā* f. (ari) criquet, grillon.

ṅṛigin m. np. d'un des suivants de Çiva. *ṅṛigīca* m. (īca) Çiva.

* भृज् *ṅṛj*. *ṅṛjé* 1; p. *baṅṛjé*; etc. pp.

ṅṛkta. Faire frire, faire rôtir; cf. *ṅṛajj*.

भृजन *ṅṛjana* n. poêle à frire.

भृणामि *ṅṛṇāmi* pr. de *ṅṛ*.

भृत् *ṅṛt* [à la fin. des compos.] qui porte; qui soutient; qui nourrit, etc. cf. *ṅṛ*.

भृत्क *ṅṛtka* m. (ṅṛ) serviteur à gages.

भृत्ति *ṅṛtī* f. (sfx. *tī*) action de soutenir; de nourrir. || Gages, salaire. || Capital d'une rente.

ṅṛtibuj m. ouvrier à gages, vivant de son salaire.

ṅṛtīya m. [f. *ī*] mms. — F. gages.

ṅṛtīyatva n. qualité ou fonction de serviteur à gages.

भृमि *ṅṛmi* m. (sfx. *mi*) ouragan, typhon.

* भृश् *ṅṛṣ*. *ṅṛṣyāmi* 4; p. *baṅṛṣa*; a. 1. *aṅṛṣiṣam*, pp. *ṅṛṣīta*. Tomber; cf. *ṅṛaṅṣ*.

भृश् *ṅṛṣa* a. nombreux, abondant, excessif. — A l'ac. n. *ṅṛṣam* beaucoup, excessivement; très-bien, éminemment.

ṅṛṣalā f. excès; véhémence.

ṅṛṣayé (dénom.) se multiplier.

भृष्ट *ṅṛṣṭa* pp. de *ṅṛṣ* et de *ṅṛajj*.

ṅṛṣṭānna n. (*anna*) riz bouilli et frit.

ṅṛṣī f. (*ṅṛajj*) friture. || Jardin ou bosquet inhabité et solitaire.

* भृष् *ṅṛṣ*. *ṅṛṣāmi* 9; p. *baṅṛāra*; etc. Blâmer, reprendre. || Soutenir, porter, cf. *ṅṛ*. || Frire, cf. *ṅṛj*. || Courber, cf. *ṅṛj*.

भेक *ṅṛka* m. grenouille; || nuage. — F. [ṛ] femelle de grenouille. || Hydrocotyle asiatica, bot.

ṅṛkaparnī f. hydrocotyle.

भेजे वैजे p. de *ṅaj*.

भेउ *ṅēda* m. (*ṅil*) bélier. || Np. d'un Muni. — F. *ṅēdī* brebis. || Lat. balare; fr. bélier. *ṅēḍaka* m. mms.

भेत् *ṅēt* 3 p. sg. impf. vd. de *ṅid*.

ṅēllāsmi f. 1. de *ṅid*.

भेत्त *ṅēllṛ* m. (*ṅid*) factieux, homme semant la division.

भेद् *ṅēda* m. (*ṅid*) action de fendre, de briser, de désunir [au propre et au fig.]; division, distinction. || Fente, fêlure; || séparation; || diversité, différence; dissentiment; || excitation à la discorde; discorde.

ṅēdalas adv. selon la diversité. *ṅēdana* n. action de diviser [au propre et au fig.].

ṅēdapratyaya m. (*prati*; *aya* de *ṛ*) la doctrine qui admet la diversité substantielle des choses, en opposition avec l'unité panthéistique.

ṅēdayāmi (c. de *ṅid*); pqp. *abīṅṅidam*. Fendre, briser. || Déchirer, troubler, *ṅayēna* par la peur. || Mettre en désaccord, désunir, *mīlān* des amis.

ṅēdin a. (sfx. *in*) qui fend, qui brise; qui sépare, qui désunit.

ṅēdura n. (sfx. *ura*) la foudre.

भेन *ṅēna* m. (*ṅā*; *ina*) le Soleil; la Lune.

भेरि *ṅēri* et *ṅēri* f. (*ṅi*; sfx. *ri*); timbale; tambour.

भेरुण्ड *ṅēruṅḍa* et qqf. *ṅēraṅḍa* a. (*ṅi*?) formidable. — S. m. le loup des cimetières [l'hyène?]. || Çiva (?). — S. f. Np. d'une *yaxiri*. — S. n. conception maternelle.

भेत्त *ṅēla* a. (*ṅi*; sfx. *la*) timide, craintif. || Ignorant, stupide. || Instable; inconstant. — S. m. radeau. || Np. d'un Muni.

ṅēlaka m. n. radeau.

भेषज *ṅēśaja* n. médicament, remède. || *Nigella indica*, bot. cf. *ṅiśaj*.

ṅēśajāyga n. (*āyga*) le corps liquide ou solide qui sert de véhicule à une médecine.

भेषामि *ṅēśāmi*, *ṅēśé* 1; p. *biṅṅēśa*, *biṅṅēśé*; etc. Craindre [sorte de dés. de *ṅi*]. *ṅēśayāmi*, c. Faire craindre, effrayer.

भेत्त *ṅēxa* n. (*ṅia*) mendicité; || aumône recueillie.

ṅēxajivikā f. (*jiv*) mendicité.

ṅēxābuj m. mendiant.

ṅēxya n. mendicité; || aumône recueillie par un mendiant.

भेमि *ṅēmī* f. Damayanti, fille de Bhīma.

भैरव *ṅēraṅva* a. (*ṅīru*) terrible, formidable. — S. m. nom d'un mode musical. || Çiva [dans qqune de ses 8 incarnations secondaires]. || Np. de riviere. — S. n. horreur, terreur. — S. f. *ṅēravī*, Durgā.

भेषज *ṅēśaja* n. remède, cf. *ṅēśaja*. — M. esp. de caille. *ṅēśajya* n. remède.

भैस् *ṅēs* 2 p. sg. a. 1. de *ṅi*.

भो *ṅō* interj. pour appeler. Lat. heu.

भोक्तुकाम *ṅōktukāma* a. (*ṅuj*; *kam*) qui désire manger, qui a faim.

भोक्तु *ṅōktu* m. [f. *trī*] mangeur, celui qui mange; || celui qui perçoit le fruit, qui jouit de qqc.; || celui qui perçoit les sensations. || Mari.

ṅōktutva n. réceptivité [opposé à *karṭṭutva* l'activité], possession, jouissance.

भोग *ṅōga* m. (*ṅuj* 7) action de manger; nourriture. || Jouissance de qqc.; || plaisir, fruit que l'on retire de qqc.; || richesse; salaire, gages. || Perception, sensation. — (*ṅuj* 6) serpent; || développement de la peau du cou du nāga. || Armée marchant en colonne. || Flexion, courbure.

ṅōgagṛha m. n. gynécée.

ṅōgapatī m. préfet des vivres; en gén. préfet, gouverneur.

ṅōgapāla m. valet.

ṅōgapicācīkā f. faim.

ṅōgāṅmī f. le paradis.

ṅōgāṅṭlaka m. serviteur préposé aux vivres.

ṅōgalāḍa m. perception d'un intérêt; intérêt perçu.

ṅōgaval a. (sfx. *vat*) qui jouit de qqc. || qui procure du plaisir. — S. m. danse, chant. || (*ṅuj* 6) serpent. — S. f. *ṅōgavālī* le cours inférieur du Gange. || La cité des Nāgas ou serpents.

ṅōgasadman n. gynécée.

ṅōgastāna n. le corps [siège des sensations]. || Gynécée.

ṅōgāvalī f. panégryrique.

ṅōgāvāsa m. gynécée.

भोगिक *ṅōgika* m. valet, palefrenier.

भोगिन् *ṅōgin* a. (*ṅuj* 7) qui jouit de qqc.

S. m. un capitaliste, un riche; maître, seigneur, roi; || chef de village. || Barbier. || (*ṅuj* 6) serpent. — S. f. *ṅōgini* (*ṅuj* 7) concubine d'un prince. || (*ṅuj* 6) la cité des Nāgas. *ṅōgindra* m. (*indra*) Ananta.

भोग्य *ṅōgya* (pf. ps. de *ṅuj* 7) comestible; || dont il faut jouir. — S. m. grain; || richesse. — S. f. courtisane.

भोज *ṅōja* m. (*ṅuj* 7) éleveur, vacher. || Np. d'un roi d'Ujjayani, célèbre comme protecteur des lettres. || Np. du pays de Patna et de Bhāgalpur.

ṅōjaka m. le pays de Bhōja.

ṅōjana n. alimentation; || action de manger; de jouir de qqc. || Aliment; objet dont on jouit.

ṅōjayāmi (c. de *ṅuj* 7) faire manger, offrir des aliments à qqn. ac. || Faire jouir qqn. [ac.] de qqc. [i.]; || donner en propriété, donner à gouverner, etc.

ṅōjāniya (pf. ps.) qu'il faut manger; dont il faut jouir. — S. n. aliment, comestibles.

ṅōjas n. vd. mms. que *ṅōgin* a.

ṅōjasa a. vd. mms. que *ṅōgin* a.

ṅōjādīpa m. Karna, roi du Bhōja.

ṅōjya a. comestible. — S. m. aliment.

ṅōjyasambhava m. (*sam*; *bhū*) chyle.

भोटाङ्ग *ṅōḍāṅga* m. np. de pays [le Bhōta ou Boutan].

भोभो *ṅōḍō* interj. pour appeler.

भोलि *ṅōli* m. chameau.

भोस् *ṅōs* interj. pour appeler. Lat. heus.

भौत *ṅōta* m. (*ṅūla*) qui sacrifie aux revenants.

ṅōtika a. (sfx. *ika*) relatif aux revenants, de revenant. — S. m. Çiva.

भौम *ṅōma* a. (*ṅūmi*) terrestre; fait de terre. — S. m. ambre gris. || Enfer. || La planète de Mars. — S. f. *ṅōmī* Sitā, née de la terre.

भौरिक *ṅōrika* m. (*ṅūri*) trésorier, argentier.

भ्यसे *ṅōsē*; p. *baṅṅōsē*; etc. Craindre, avoir peur [sorte de c. de *ṅi*]; cf. *ṅiśayē*. *ṅōśayāmi* c.

भ्रकुटि *ṅōkūṭi* cf. *ṅōkūṭi*.

भ्रकुंस *ṅōkūṅsa* cf. *ṅōkūṅsa*.

* भ्रत् *ṅōra*, cf. *ṅōra*.

* भ्रज्ज् *ṅōrajj*. *ṅōrajjāmi*, *ṅōrajjé* 6; p. *baṅṅōrajja*, *baṅṅōrajjé*; f2. *ṅōrajjāmi*, *ṅōrajjé*, et *ṅōrajjāmi*; a. 1. *aṅṅōrajjam* et *aṅṅōrajjam*, *aṅṅōrajji* et *aṅṅōrajji*; pp. *ṅōrajjāta*. Faire frire. Gr. *φρύγγω*, φρύγω; lat. frigo; fr. frire, friter. *ṅōrajjayāmi* c.